



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 96] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 10, 1977/ज्यैष्ठ 20, 1899

No. 96] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 10, 1977/JYAISTHA 20, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 10th June 1977

No **DRAWBACK/PN-23/77**.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F.No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extraordinary dated 25th August, 1971), the Central Government hereby make the following amendments in the Table published in the Public Notice No. **DRAWBACK/PN-1** dated the 15th October, 1971, as amended from time to time :—

For sub-serial No. 1916 and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely :—

Sub Sl. No.	Description	Rate of drawback
1916.	Articles or component parts of any articles made from polypropylene moulding powder or unlaminated polypropylene sheets/rods/tubes etc. (excluding rigid plastic boards, sheetings, sheets and films, whether laminated or not).	Rs. 488.00 (Rupees four hundred and eighty eight only) per quintal.

Provided that —

(i) Where the exporter produces evidence to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs and also produces certificate from the manufacturer that a quantity of 105 kgs of polypropylene moulding powder has been released by the S.T.C to the exporter or the manufacturer and used within a period of 12 months immediately preceding the date of such exportation for the manufacture of every quintal of product exported and that the quantity of polypropylene moulding powder has not been—

(a) similarly correlated to and accounted for against any other previous exportation of articles of polypropylene moulding powder, or

(b) previously re-exported as such or in any other form with or without claim for drawback, the rate shall apply *in toto*.

(ii) where the evidence specified above is not produced the rate shall be Rs. 404 (Rupees four hundred and four only) per quintal.

Explanation.—In order to determine whether the importation or release of material is within the period of 12 months immediately preceding the date of exportation, the date of importation of the material in the case of materials imported directly and the date of release order in the case of materials released by S.T.C. shall be taken into account.

Provided further that the procedure prescribed under rule 56-A or 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944 are not followed by the manufacturer/exporter in respect of the said articles.

This Public Notice shall be deemed to have been come into force on the 12th day of January, and shall remain in force upto 30-5-1977, unless withdrawn earlier.

C. D. RANGACHARI, Dy. Secy.

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 1977

सं० प्रतिअदायगी सा० सू०-23 77.— गीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52 का० सं० 602/2 70 प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यशमशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी सा० सू० 1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित सशोधन करती है —

उपक्रमांक 1916 और तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात् —

उप क्रमांक	भाल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर
1916	पोलीप्रोपीलीन मोल्डिंग पाउडर अथवा बिना परत चढ़ी पोलीप्रोपीलीन चारों/छट्टों/ट्यूबों आदि से निर्मित वस्तुएं अथवा किसी वस्तु के षटक पुर्जे (जिनमें ठोस प्लास्टिक बोर्ड, शीटिंग, चादरें और फिल्में चाहे उन पर परत चढ़ी हो अथवा नहीं) ।	488.00 रु० (बेवल चार सौ अट्ठासी रुपये) प्रति क्विंटल ।

परन्तु यह तब जबकि—

(i) निर्यातकर्ता सीमाशुल्क के सहायक समाहर्ता को उसके समाधानपद रूप से साक्ष्य प्रस्तुत करता है और निर्माता का इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि निर्यात किये गये प्रति क्विंटक उत्पाद के निर्माण के लिए ऐसे निर्यात की तारीख से तुरन्त पहले की 12 महीने की अवधि में निर्यातकर्ता अथवा निर्माता को राज्य व्यापार निगम द्वारा 105 कि० ग्रा० पोलिप्रोपीलीन मोल्डिंग पाउडर दिया गया है तथा उसका इस्तेमाल किया गया है और यह कि पोलिप्रोपीलीन मोल्डिंग पाउडर की इस मात्रा को—

(क) पोलिप्रोपीलीन मोल्डिंग पाउडर की वस्तुओं के किसी अन्य पूर्ववर्ती निर्यात में इसी प्रकार सह सबद्ध नहीं किया गया है और हिसाब में नहीं दिखाया गया है, अथवा

(ख) प्रतिप्रदायगी दावे के साथ अथवा बिना किसी दावे के वे नहीं अथवा किसी भी अन्य रूप में इस प्रकार पुनर्निर्यात नहीं किया गया है,

यह दर पूर्णतया लागू होगी ।

(ii) जहां उपरिनिर्दिष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाता है, वहां यह दर 404.00 रु० (केवल चार सौ चार रुपये) प्रति क्विंटल होगी ।

रूपन्दीकरण—यह निश्चित करने की दृष्टि से कि सामान का आयात अथवा उसकी निकासी निर्यात की तारीख से पूर्ववर्ती बारह महीने की अवधि के भीतर की गई है अथवा नहीं, सीधे आयात किये गये सामान के मामले के सामान के आयात की तारीख तथा राज्य व्यापार निगम द्वारा दिये गये सामान के मामले में सामान को छोड़ने के आदेश की तारीख को हिसाब में लिया जायेगा ।

परन्तु यह तब जबकि निर्माता/निर्यातकर्ता उक्त वस्तुओं के सबद्ध में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56-क अथवा 191-क अथवा 191-ख के आधीन निर्धारित कार्यविधियों का पालन नहीं किया गया हो ।

यह सार्वजनिक सूचना जनवरी, 1977 के 12वें दिन को लागू हुई मानी जायेगी और 30-6-1977 तक लागू रहेगी, बशर्ते कि यह इसे पहले वापिस नहीं ले ली गई हो ।

सी० डी० रंगाचारी, उप सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टा रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

